



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 1970/फाल्गुन 20, 1891

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 1970/PHALGUNA 20, 1891

इस भाग में भिन्न-भिन्न संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING ORDERS

[New Delhi, the 11th March, 1970]

S.O. 1027.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1965, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Appli- cant	Name of the Produ- cer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a docu- mentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Indian News Review No. 11116.	191.03 M	Films Division, Govt. of Indic, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with news and current events.	
2.	Indian News Review No. 11117.	230.02 M		Do.	Do.
3.	Sardar Patel	600 M		Do.	Documentary film.
4.	Milady's Choice (Colour).	118		Do.	Educational film.

[No. F. 28/1/70-FP. App. 1433]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च 1970

एस० ओ० 1027.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792 तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या फिल्म है या शिक्षा फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1116.	191.03 मी०	फिल्म्स प्रभाग भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26।	तथा	सामयिक घटनाओं की फिल्म।
2.	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1117.	230.02 मी०		तथैव	तथैव
3.	सरदार पटेल	600.00 मी०		तथैव	डाकुमेंट्री फिल्म
4.	मीलेडीज चौइस (रंगीन)	118 मी०		तथैव	शिक्षा [सम्बन्धी फिल्म।

S.O. 1018.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language version to be of the description specified against it in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Appli- cant	Name of the Produ- cer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with new and current events or a documentary film.
2	3	4	5	6	
1.	Indian News Review No. 1116 (Southern Edition).	273.94M	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events (for release in Andhra Pra- desh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu circuit only).

[No. F. 28/1/70-FP. App. 1434]

एस० नो० 1028.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० नो० 3792 दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 को प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घट- नाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1116 (दक्षिणी संस्करण).	273.94 मीटर	फिल्म्स प्रभाग, पेडर रोड, बम्बई-26।	भारत सरकार, 24-	समाचार तथा सामयिक घट- नाओं की फिल्म (केवल आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर तथा तमिलनाडु में प्रदर्शन के लिए)।

[फा० संख्या 28/1/70-एफ० पी०-परिशिष्ट 1434]

S.O. 1029—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language version to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Indian News Review No. 1117 (Western Region)	282.24. m	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (for release in Gujarat, Maharashtra & Goa circuits only).

[No. F. 28/1/70-FP App. 143]

एस० ओ० 1029.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उस के सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा (सं० 1117 (पश्चिमी संस्करण)।	282.24 मि०	फिल्म्स प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा में प्रदर्शन के लिए)।

S.O. 1030.—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in their Marathi language version to be of the description specified against each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 213.	302M	Director of Publicity Government of Maharashtra, 68-Film Centre, Tardeo Road, Bombay-34.		Film dealing with news and current events (for release in Maharashtra circuit only).
2.	Asahi Ek Manav Zala.	488M	The Executive Secretary, Gandhi Century Committee, Bombay-32.		Documentary film (for release in Maharashtra circuit only).

[No. F. 28/1/70-FP App. 1436]

सं. प्रो० 1030.—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उन के मराठी भाषा रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- 2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घट- नाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र समा- चार सं० 213.	302 मी०	सूचना निदेशक, महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेंटर, तारदेव बम्बई-34।	68- रोड,	समाचार और सामयिक घट- नाओं से सम्ब- न्धित फिल्म (केवल महा- राष्ट्र सर्किट के लिए)।
2.	असाही एक मानव झाला	488 मी०	एग्जीक्यूटिव सचिव, गान्धी सेंचुरी कमेटी सचिवालय, बम्बई-32.		डाकुमेंट्री फिल्म (केवल महा- राष्ट्र सर्किट में रिलीज करने के लिए)।

[फाईल संख्या 28/1/70-ए० पी०-परिशिष्ट 1436]

S.O. 1031—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No.S.O. 3792, dated the 2nd December, 1956, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in its English language versions to be of the description specified against in it column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Appli- cant,	Name of the Pro- ducer	Whether a Scientific film or a film intended for edu- cational purposes or a film dealing with news and current events or a docu- mentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Oerracotta Temples	345.95 M	Shri Hari S. Dasgupta, 6, Southern Avenue, Calcutta-26.		Documentary film.

[No. F. 28/1/70-FP App. 1437]

K. K. KHAN Under Secy.

एस० नो० 1031.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० नो० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके अंग्रेजी रूपान्तर से जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मी० मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1.	2	3	4	5	6
1.	टैराकोटा टेम्पल्स	345.95 मी०	श्री. हरीदास गुप्ता, 6, सदरन् एवेन्यू, कलकत्ता-26।		डाकुमेंट्री फिल्म

[फाइल संख्या 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट 1437]

क० क० खान, अधर सचिव।

